



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.11.2021

1-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा विकास प्राधिकरण के साईन बोर्ड व पाईप की चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 09 साईन बोर्ड व 03 लोहे के पाइप बरामद।

दिनांक 21.11.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा विकास प्राधिकरण के साईन बोर्ड व पाईप की चोरी करने वाला अभियुक्त शमशाद पुत्र समीर निवासी लेवर चौक, दीपक विहार, खोडा कॉलौनी जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के बिजली घर के पास सेक्टर-55 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 09 साईन बोर्ड व 03 लोहे के पाइप बरामद हुये है।

अभियुक्त का विवरण:

शमशाद पुत्र समीर निवासी लेवर चौक, दीपक विहार खोडा कॉलौनी, जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-916/21 धारा 380, 411 भादवि थाना सेक्टर-58 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

चोरी के 09 साईन बोर्ड व 03 लोहे के पाइप (वजन करीब 190 किलोग्राम)



2-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा नकली पिस्टल के बल पर दबाव बनाकर धन उगाही करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नकली पिस्टल बरामद।

दिनांक 21.11.2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा नकली पिस्टल के बल पर दबाव बनाकर धन उगाही करने वाले 02 अभियुक्त 1. सागर जैन पुत्र अरविन्द कुमार जैन निवासी फ्लैट नं0-ए 304, खुशबू अपार्टमेन्ट, सेक्टर चाई, ग्रेटर नोएडा, 2. अरविन्द कुमार जैन पुत्र निर्मल कुमार जैन निवासी फ्लैट नं0-ए 304, खुशबू अपार्टमेन्ट, सेक्टर चाई, ग्रेटर नोएडा को थाना क्षेत्र के पी-3 गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त नकली पिस्टल बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. सागर जैन पुत्र अरविन्द कुमार जैन निवासी फ्लैट नं0-ए 304, खुशबू अपार्टमेन्ट, सेक्टर चाई, ग्रेटर नोएडा।
2. अरविन्द कुमार जैन पुत्र निर्मल कुमार जैन निवासी फ्लैट नं0-ए 304, खुशबू अपार्टमेन्ट, सेक्टर चाई, ग्रेटर नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1057/2021 धारा 504/506/451/384/34 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

घटना मे प्रयुक्त 01 नकली पिस्टल

